

बी.एच.डी. ई.-142/ राष्ट्रीय काव्यधारा/बी.ए.ऑनर्स

स्नातक उपाधि प्रतिष्ठा (सी.बी.सी.एस.)  
(बी.ए.ऑनर्स)

सत्रीय कार्य  
(जनवरी 2022 सत्र के तथा जुलाई 2022, सत्र के छठे सेमेस्टर के  
लिए)

पाठ्यक्रम कोड : बी.एच.डी.ई.-142 : राष्ट्रीय काव्यधारा



मानविकी विद्यापीठ  
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय  
मैदान गढ़ी, नई दिल्ली-110068

## हिन्दी में आधार पाठ्यक्रम सत्रीय कार्य

पाठ्यक्रम कोड : बी.एच.डी.ई-142/ बी.ए. ऑनर्स

प्रिय छात्र/छात्राओ!

'राष्ट्रीय काव्यधारा' पाठ्यक्रम में आपको एक सत्रीय कार्य करना है। यह सत्रीय कार्य शिक्षक जाँच सत्रीय कार्य (टी.एम.ए.) है। सत्रीय कार्य के लिए 100 अंक निर्धारित किये गये हैं।

**उद्देश्य :** सत्रीय कार्य का मुख्य उद्देश्य यह जाँचना है कि आपने पाठ्य सामग्री को कितना समझा है और आप स्वयं उसे अपने शब्दों में कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं। उद्देश्य यह भी है कि अध्ययन के दौरान जो कुछ आपने सीखा और समझा है उसे आलोचनात्मक ढंग से प्रस्तुत कर सकें।

**निर्देश :** सत्रीय कार्य आरंभ करने से पूर्व निम्नलिखित बातों को ध्यान से पढ़िए :

1. ऐच्छिक पाठ्यक्रम के लिए कार्यक्रम दर्शिका में दिए गए विस्तृत निर्देशों का सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए।
2. अपनी उत्तर पुस्तिकाओं के पहले पृष्ठ के दाएँ सिरे पर अनुक्रमांक, नाम, पूरा पता और दिनांक लिखिए।
3. अपनी उत्तर पुस्तिकाओं के प्रथम पृष्ठ के मध्य भाग में पाठ्यक्रम का शीर्षक, सत्रीय कार्य संख्या और अपने अध्ययन केन्द्र का उल्लेख कीजिए।
4. उत्तर पुस्तिका का प्रथम पृष्ठ निम्न प्रकार से शुरू होगा :

अनुक्रमांक : .....

नाम : .....

पता : .....

.....

पाठ्यक्रम का नाम/कोड : .....

सत्रीय कार्य कोड : .....

अध्ययन केन्द्र का नाम/कोड : .....

दिनांक : .....

5. उत्तर के लिए केवल फुलस्केप के आकार के कागज़ का इस्तेमाल करें और उन कागज़ों को अच्छी तरह से बाँध लें।
6. प्रत्येक उत्तर के पहले प्रश्न संख्या अवश्य लिखें और अपनी ही लिखावट में उत्तर दें।
7. सत्रीय कार्य पूरा करके जाँच के लिए अपने अध्ययन केन्द्र के संयोजक (Coordinator) के पास निर्धारित तिथि तक अवश्य जमा करा दें।

**सत्रीय कार्य जमा करने की अंतिम तिथि :**  
**जनवरी 2022 सत्र के छठे सेमेस्टर के लिए : 31 अक्टूबर, 2022**  
**जुलाई 2022 सत्र के छठे सेमेस्टर के लिए : 30 अप्रैल, 2023**

**सत्रीय कार्य के लिए आवश्यक निर्देश :**

सत्रीय कार्य के तीन खंड हैं और उसमें तीन तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। उत्तर देने के लिए आप निम्नलिखित विधि से तैयारी करेंगे तो आपके लिए लाभप्रद होगा :

उत्तर देने के लिए आप निम्नलिखित विधि से तैयारी करेंगे तो आपके लिए लाभप्रद होगा :

1. **अध्ययन** : सबसे पहले सत्रीय कार्य को ध्यान से पढ़िए। फिर इससे संबंधित इकाइयों का अध्ययन कीजिए। अंत में प्रत्येक प्रश्न के संबंध में सभी खास बातें नोट कर लीजिए और उन्हें तार्किक ढंग से पुनर्व्यवस्थित कीजिए।
2. **अभ्यास** : अपने उत्तर का प्रारूप लिखने से पूर्व नोट की गई बातों पर विचार कीजिए। निबंधात्मक या टिप्पणीपरक प्रश्नों में आरंभ और उपसंहार का विशेष ध्यान दीजिए। उत्तर के आरंभिक अंश में प्रश्न की संक्षिप्त व्याख्या और अपने उत्तर की दिशा का संकेत अवश्य दे देना चाहिए। मध्य भाग में आप उत्तर का मुख्य भाग आवश्यक विस्तार के साथ क्रमबद्ध और तार्किक ढंग से प्रस्तुत करें। उपसंहार में उत्तर का सार देना चाहिए।

यह सुनिश्चित कर लीजिए कि :

- क) आपका उत्तर तार्किक और सुसंगत हो,
- ख) वाक्यों और अनुच्छेदों (Paragraphs) के बीच स्पष्ट क्रमबद्धता हो,
- ग) उत्तर सही ढंग से लिखा गया हो तथा जो आपकी अभिव्यक्ति, शैली और प्रस्तुति के पूर्णतया अनुकूल हो।
- घ) उत्तर प्रश्न में निर्धारित शब्दों से अधिक लंबा न हो, और
- ङ) आपके लेखन में भाषागत त्रुटियाँ न हों, विशेष रूप से मात्रा और व्याकरण संबंधी गलतियों से बचें।

1. **प्रस्तुति** : जब आप अपने उत्तर से पूर्णतया संतुष्ट हो जाएँ तो उसको साफ और सुंदर अक्षरों में उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिए तथा जिन बातों पर आप जोर देना चाहते हैं उन्हें रेखांकित कर दीजिए।
2. **विशेष** : अपने उत्तर की फोटो प्रति/कार्बन प्रति अपने पास अवश्य रखें।

शुभकामनाओं सहित!

**नोट** : याद रखें कि विश्वविद्यालय के नए नियमानुसार परीक्षा में बैठने से पूर्व सत्रीय कार्य जमा कराना अनिवार्य है अन्यथा आपको परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

**सत्रीय कार्य**  
**(संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित)**

पाठ्यक्रम कोड : बी.एच.डी.ई-142/ बी.ए. ऑनर्स  
सत्रीय कार्य कोड : बी.एच.डी.ई-142/2022  
कुल अंक : 100

नोट : सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

**खंड – क**

**निम्नलिखित पद्यांशों की ससंदर्भ व्याख्या कीजिये :**

**10×4=40**

1. केवल पुरुष ही थे न वे जिनका जगत को गर्व था,  
गृह-देवियाँ भी थीं हमारी देवियाँ ही सर्वथा।  
था अत्रि-अनुसूया-सदृश गार्हस्थ्य दुर्लभ स्वर्ग में,  
दाम्पत्य में वह सौख्य था जो सौख्य था अपवर्ग में।।

2. चाह नहीं, सम्राटों के शव पर, हे हरि, डाला जाऊँ।  
चाह नहीं, देवों के सिर पर चढ़ूँ, भाग्य पर इटलाऊँ।।

मुझे तोड़ लेना वनमाली।  
उस पथ में देना तुम फेंक।।  
मातृ-भूमि पर शीश चढ़ाने।  
जिस पथ जावें वीर अनेक।।

3. तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार,  
किन्तु सामने नाला आया, था वह संकट विषम अपार,  
घोड़ा अड़ा, नया घोड़ा था, इतने में आ गये सवार,  
रानी एक, शत्रु बहुतेरे, होने लगे वार-पर-वार।  
घायल होकर गिरी सिंहनी उसे वीर गति पानी थी,  
बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी,  
खूब लड़ी मर्दानी वह तो झाँसी वाली रानी थी।।

4. चढ़कर चेतक पर घूम-घूम  
करता सेना-रखवाली था।  
ले महा-मृत्यु को साथ-साथ,  
मानो प्रत्यक्ष कपाली था।

रण-बीच चौकड़ी भर-भरकर  
चेतक बन गया निराला था।  
राणा प्रताप के घोड़े से,  
पड़ गया हवा का पाला था।

### खंड –ख

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 500 शब्दों में दीजिए :

10×4=40

5. आधुनिक युग की परिस्थितियों पर प्रकाश डालिए।
6. माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य की मूल संवेदना को स्पष्ट कीजिए।
7. प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित सुभद्रा कुमारी चौहान का साहित्य में क्या योगदान रहा है?
8. दिनकर के काव्य में राष्ट्रीय चेतना को व्यक्त कीजिए।

### खंड –ग

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 200 शब्दों में दीजिए :

5×4=20

9. 'समर शेष है' कविता का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए।
10. 'जौहर' काव्य में नारित्व किस प्रकार रेखांकित हुआ है?
11. 'झाँसी की रानी' कविता में मर्दानी शब्द का क्या आशय है? इस शब्द को किसके लिए और क्यों प्रयुक्त किया है?
12. 'पुष्प की अभिलाषा' में कवि क्या संदेश देना चाहता है।